



Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor, SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA Morning Session (Revised Key)

Q1. रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए।
दादाजी की मृत्यु के बाद पूरा घर सूना हो गया।

(Bonus Mark Allotted To All Candidates)

- A. अपवर्ग
B. स्वर्गवा
C. पेठा
D. तनु

Q2. रेखांकित शब्द का विपरीत (विलोम) अर्थ बताइए।
हमे पूजा करते वक्त सभी देवी देवताओं का विसर्जन करना चाहिए।

- A. बहा देना
B. आह्वान
C. अनावृत
D. विकर्षण

Q3. नीचे लिखे मुहावरे का उचित अर्थ बतायें
अपना उल्लू सीधा करना।

- A. अपना मतलब निकालना
B. अपने बारे में सोचना
C. घमण्डी होना
D. अपना काम दूसरे पर थोपना

Q4. नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बनायें।
चश्मा

- A. चश्मे
B. चश्माँ
C. चश्माए
D. चश्में

Q5. नीचे लिखे शब्द का एकवचन बनायें।
कीड़े

- A. किड
B. किडा
C. कीड़ा
D. कीड



Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor, SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA Morning Session (Revised Key)

Q6. _____ is the synonym of "GORGE".

- A. Decorate
C. Stick
B. Stuff
D. Teach

Q7. _____ is the antonym of "WANE".

- A. Decrease
C. Seek
B. Wax
D. Bring

Q8. Identify the meaning of the idiom

"Live from hand to mouth."

- A. Put on weight because of overeating.
C. Have just enough money to meet basic needs.
B. Focus only on eating a heavy meal everytime.
D. Free oneself from burdens.

Q9. The sentence given below may contain one or more mistakes. Identify the correct sentence.

"I am tired to tell him not eat junk food."

- A. I am tired of telling him not to eat junk food.
C. I am tiring to tell him not eat junk food.
B. I am tired to tell him not to eat junk food.
D. I am tired of telling him not eat junk food.

Q10. Complete the sentence by choosing the correct form of the verb given in brackets.

The exhibition _____ (start) at 8 A.M. tomorrow.

- A. started
C. starting
B. start
D. starts

Q11. _____ was the Prime minister when the Economic liberalisation in India was introduced by Dr. Manmohan Singh.

- A. Rajiv Gandhi
C. V.P. Singh
B. P.V. Narasimha Rao
D. I.K. Gujral



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor,
SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session (Revised Key)**

Q11. जिस समय डॉ मनमोहन सिंह द्वारा भारत में आर्थिक उदारीकरण पेश किया गया था उस समय _____ प्रधान मंत्री थे।

- A. राजीव गांधी
B. पी. वी. नरसिंह राव
C. वी. पी. सिंह
D. आई. के. गुजराल

Q12. According to the Asian Development Bank (ADB)'s recent Asian Development Outlook report, _____ will be the fastest growing economy during the financial year 2019-20.

- A. China
B. India
C. Taiwan
D. Singapore

Q12. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की ताजा एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान _____ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी।

- A. चीन
B. भारत
C. ताइवान
D. सिंगापुर

Q13. Which one of the states below does NOT form border with Myanmar?

- A. Nagaland
B. Manipur
C. Assam
D. Mizoram

Q13. निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार की सीमा से सटी हुई नहीं है?

- A. नगालैंड
B. मणिपुर
C. असम
D. मिजोरम

Q14. What is the maximum strength of the Lok Sabha prescribed by the constitution (Article 81) of India?

- A. 552
B. 534
C. 504
D. 564

Q14. भारत के संविधान (अनुच्छेद 81) द्वारा निर्धारित लोकसभा की अधिकतम शक्ति कितनी है?

- A. 552
B. 534
C. 504
D. 564



Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor, SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA Morning Session (Revised Key)

Q15. Prithviraj Chauhan was defeated by _____ in the second battle of Tarain.

A. Muhammad Ghori

B. Jaichand Gaharwar

C. Qutb-ud-din Aibak

D. Ghiyath al-Din

Q15. पृथ्वीराज चौहान तराई की दूसरी लड़ाई में _____ से हार गए।

A. मोहम्मद गोरी

B. जयचंद गहरवार

C. कुतुब-उद-दीन ऐबक

D. गियात अल-दीन

Q16. In 1927, Babur defeated Mewar's King Rana Sanga in _____.

A. Panipat War

B. Battle of Khanwa

C. Battle of Tarain

D. Kurukshetra War

Q16. 1927 में, बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को _____ में हराया।

A. पानीपत की लड़ाई

B. खानवा की लड़ाई

C. तराई की लड़ाई

D. कुरुक्षेत्र की लड़ाई

Q17. Haryana was the _____ state in the country to achieve 100% rural electrification.

A. 5th

B. 4th

C. 1st

D. 2nd

Q17. हरियाणा 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का _____ राज्य था।

A. पांचवां

B. चौथा

C. पहला

D. दूसरा

Q18. Babu Mool Chand Jain was also known as _____.

A. Ironman of Haryana

B. Gandhi of Haryana

C. Punjab Kesari

D. Sher-e-Haryana



Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor, SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA Morning Session (Revised Key)

Q18. बाबू मूलचंद जैन को _____ के नाम से भी जाना जाता था।

A. हरियाणा का लौहपुरुष

B. हरियाणा का गांधी

C. पंजाब केसरी

D. शेर-ए-हरियाणा

Q19. In the April-May 2019 elections, the Aam Aadmi party had firmed up its alliance with _____ in Haryana.

A. Indian National Lok Dal (INLD)

B. Indian National Congress (INC)

C. Siromani Akali Dal (SAD)

D. Jannayak Janata Party (JJP)

Q19. अप्रैल-मई 2019 के चुनावों में, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में _____ के साथ अपने गठबंधन को मजबूत किया था।

A. इंडियन नेशनल लोक दल (INLD)

B. इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC)

C. सिरोमणि अकाली दल (SAD)

D. जननायक जनता पार्टी (JJP)

Q20. Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University is in _____ district.

A. Ambala

B. Hisar

C. Karnal

D. Faridabad

Q20. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय _____ जिले में है।

A. अम्बाला

B. हिसार

C. करनाल

D. फरीदाबाद

Q21. For the 2019 Lok Sabha elections, who was the Chief Electoral Officer of Haryana?

A. Shri Shrikant Walgad

B. Shri V S Sampath

C. Shri Rajeev Ranjan

D. Sri Harishankar Brahma

Q21. 2019 लोकसभा चुनाव के लिए, हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन था?

A. श्री श्रीकांत वलगाड

B. श्री वी एस संपत

C. श्री राजीव रंजन

D. श्री हरिशंकर ब्रह्मा



Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor, SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA Morning Session (Revised Key)

Q22. Reigning youth world champion in Boxing _____ hails from Haryana.

A. Sakshi

B. Pinki Rani

C. Pwilao basumatary

D. Parveen

Q22. बॉक्सिंग में मौजूदा युवा विश्व चैंपियन _____ हरियाणा से है।

A. साक्षी

B. पिंकी रानी

C. पिलाओ बासुमतारी

D. परवीन

Q23. Union Water Resources Minister Nitin Gadkari signed a memorandum of understanding (MoU) here with _____ states for the construction of the Lakhwar multi-purpose project in the upper Yamuna basin to deal with water crisis.

A. 5

B. 6

C. 7

D. 4

Q23. केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने, जल संकट से निपटने के लिए ऊपरी यमुना बेसिन में, लखवाड बहुउद्देश्यीय परियोजना के निर्माण के लिए _____ राज्यों के साथ मेमोरैंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

A. 5

B. 6

C. 7

D. 4

Q24. Central Pollution Control Board (CPCB) has ordered the Haryana State Pollution Control Board to identify and immediately shut industrial units in Yamunanagar, _____ and _____, which are polluting Yamuna river and not complying with the norms prescribed under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

A. Jagadhri, Baghat

B. Panipat and Kundli (Sonipat)

C. Faridabad, Panipat

D. Ballabgarh, Faridabad

Q24. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, यमुनानगर, _____ और _____ में उन औद्योगिक इकाइयों की पहचान करने और तुरंत बंद करने का आदेश दिया है, जो यमुना नदी को प्रदूषित कर रही है, और जल संरक्षण (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 के तहत निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं कर रही हैं।

A. जगाधरी, बागपत

B. पानीपत और कुंडली (सोनीपत)

C. फरीदाबाद, पानीपत

D. बल्लभगढ़, फरीदाबाद



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor,
SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session (Revised Key)

Q25. The original Panchatantra was written by _____.

- A. Samudra Gupta
B. Kalidasa
C. Vishnu Sharma
D. Tulsi Das

Q25. असली पंचतंत्र _____ द्वारा लिखा गया था।

- A. समुद्र गुप्त
B. कालिदास
C. विष्णु शर्मा
D. तुलसी दास

Q26. The 16th century poet who wrote 'Sur Sagar' is _____.

- A. Achyutananda
B. Meera Bai
C. Surdas
D. Tulsidas

Q26. _____ 16वीं शताब्दी के कवि हैं जिन्होंने 'सूरसागर' लिखा था।

- A. अच्युतानंद
B. मीरा बाई
C. सूरदास
D. तुलसीदास

Q27. Which of the following is NOT an autobiography of Kapil Dev?

- A. By God's Decree
B. Cricket my Style
C. Straight from the Heart
D. Line and Strength

Q27. निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक, कपिल देव की आत्मजीवनी नहीं है?

- A. बाई गॉड्स डिक्री
B. क्रिकेट माई स्टाइल
C. स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट
D. लाइन एंड स्ट्रेंथ

Q28. The poet who was conferred Surya kavi of Haryanvi Raagini and Swaang is _____.

- A. Dada Lakhmi Chand
B. Dayachand Mayna
C. Nek Chand Saini
D. Jasraj



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor,
SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session (Revised Key)**

Q28. किस कवि को हरियाणवी रागनी और सांग के सूर्य कवि के नाम से सम्मानित किया गया था?

- A. दादा लखमी चंद
B. दयाचंद मयना
C. नेक चंद सेनी
D. जसराज

Q29. Which river enters Haryana near Pinjore, Panchkula?

- A. Markanda
B. Ghaggar
C. Indori
D. Dohan

Q29. पिंजौर, पंचकुला के पास हरियाणा में कौन सी नदी प्रवेश करती है?

- A. मार्कंड
B. घग्गर
C. इंदोरी
D. दोहन

Q30. Which of the following crops is grown as a major crop during rabi season in Haryana?

- A. Maize
B. Sorghum
C. Millet
D. Wheat

Q30. हरियाणा में रबी की मौसम के दौरान एक प्रमुख फसल के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है?

- A. मक्का
B. चारा
C. बाजरा
D. गेहूँ

Q31. For the purpose of a systematic geographical study of the land-based environment in the State of Haryana, it is demarcated into _____ natural topographical zones or divisions.

- A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Q31. हरियाणा राज्य में भूमि आधारित पर्यावरण के व्यवस्थित भौगोलिक अध्ययन के उद्देश्य से, इसे _____ प्राकृतिक स्थलाकृतिक क्षेत्र या प्रभागों में सीमांकित किया गया है।

- A. 3
B. 4
C. 5
D. 6



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor,
SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session (Revised Key)**

Q32. Which amongst the following is the oldest range of fold mountains in India according to geological history?

- A. Aravalli
B. Vindhya
C. Satpura
D. Nilgiris

Q32. निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला, भूगर्भीय इतिहास के अनुसार भारत में मोड़दार पर्वतों की सबसे पुरानी श्रृंखला है?

- A. अरावली
B. विंध्य
C. सतपुड़ा
D. नीलगिरी

Q33. Which southern district of Haryana is a major producer of bajra?

- A. Ambala
B. Bhiwani
C. Fatehabad
D. Panchkula

Q33. हरियाणा का कौन सा दक्षिणी जिला बाजरे का एक प्रमुख उत्पादक है?

- A. अम्बाला
B. भिवानी
C. फतेहाबाद
D. पंचकुला

Q34. Which is the largest city of Haryana state in terms of area?

- A. Hisar
B. Bhiwani
C. Faridabad
D. Panchkula

Q34. क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है?

- A. हिसार
B. भिवानी
C. फरीदाबाद
D. पंचकुला

Q35. Emergency at state level can be declared under _____ of the Indian Constitution.

- A. Article 352
B. Article 353
C. Article 356
D. Article 360



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor,
SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session (Revised Key)**

Q35. राज्य स्तर पर आपातकाल की घोषणा, भारतीय संविधान के _____ के अंतर्गत की जा सकती है।

- A. अनुच्छेद 352
B. अनुच्छेद 353
C. अनुच्छेद 356
D. अनुच्छेद 360

Q36. Choose the network that interconnects different computers across the world.

- A. LAN
B. MAN
C. Internet
D. WAN

Q36. उस नेटवर्क को चुनें जो दुनिया भर के विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है।

- A. लैन (LAN)
B. मैन (MAN)
C. इंटरनेट
D. वैन (WAN)

Q37. Which among these is the State flower of the State of Haryana?

- A. Gladiolus
B. Lotus
C. Marigold
D. Rose

Q37. हरियाणा राज्य का राज्य पुष्प कौन सा है?

- A. खंगिकालता
B. कमल
C. गेंदा
D. गुलाब

Q38. According to India State of Forest Report, FSI, 2013, Forest and Tree Cover of the Haryana state is _____ percent of its geographical area.

- A. 20
B. 3.59
C. 2.3
D. 6.49

Q38. भारत राज्य वन रिपोर्ट, FSI 2013 के अनुसार, हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के _____ प्रतिशत हिस्से में वन और वृक्षों का विस्तार है।

- A. 20
B. 3.59
C. 2.3
D. 6.49



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor,
SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session (Revised Key)**

Q39. Which is the standard protocol used by the Internet?

- A. TCP/IP
B. IMAP
C. POP3
D. SMTP

Q39. इंटरनेट द्वारा प्रयुक्त मानक प्रोटोकॉल कौन सा है?

- A. टीसीपी/आईपी (TCP/IP)
B. आईएमएपी (IMAP)
C. पीओपी 3 (POP3)
D. एसएमटीपी (SMTP)

Q40. Pick the odd one out:

Gun, Sword, Rifle, Pistol

- A. Rifle
B. Pistol
C. Sword
D. Gun

Q40. असंगत का चयन करें:

बंदूक, तलवार, राइफल, पिस्तौल

- A. राइफल
B. पिस्तौल
C. तलवार
D. बंदूक

Q41. Find the analogy.

ANBO : CPDQ :: ERF S :

- A. KLMN
B. GTHU
C. JTER
D. IKVU

Q41. समानता ढूँढें

ANBO : CPDQ :: ERF S :

- A. KLMN
B. GTHU
C. JTER
D. IKVU



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor,
SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session (Revised Key)**

Q42. Find the missing number.

2, 6, 12, 20, ?

- A. 22
B. 25
C. 28
D. 30

Q42. अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें।

2, 6, 12, 20, ?

- A. 22
B. 25
C. 28
D. 30

Q43. In certain language, if CHENNAI is coded as BGDMZH, then how is MADRAS coded as?

- A. ATHCF
B. LZCQR
C. ATCMF
D. DAMSAR

Q43. यदि एक कोड भाषा में CHENNAI को BGDMZH लिखा जाता है तो MADRAS को क्या लिखा जाएगा?

- A. ATHCF
B. LZCQR
C. ATCMF
D. DAMSAR

Q44. Find the value of X in the following equation:

$$2(X + 10) + 9X - 15 = 49$$

- A. 0
B. 6
C. 2
D. 4

Q44. निम्नलिखित समीकरण में X का मान निकालें:

$$2(X + 10) + 9X - 15 = 49$$

- A. 0
B. 6
C. 2
D. 4



Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor, SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA Morning Session (Revised Key)

Q45. Ali has to choose one day of the week to play cricket. What is the probability that Ali chooses Sunday?

- A. $1/5$ **B. $1/7$**
C. $1/3$ D. 7

Q45. अली को क्रिकेट खेलने के लिए सप्ताह का एक दिन चुनना है। इस बात की क्या संभावना है कि अली रविवार चुनेगा?

- A. $1/5$ **B. $1/7$**
C. $1/3$ D. 7

Q46. Rahul scored 78% marks in English, 75% marks in Hindi and 98% marks in Mathematics. All the question papers were of 200 marks each. Find the total number of marks scored by him in Mathematics.

- A. 189 B. 192
C. 176 **D. 196**

Q46. राहुल को अंग्रेजी में 78% अंक, हिंदी में 75% अंक, और गणित में 98% अंक मिले। सभी प्रश्न पत्र 200 अंक के थे। गणित में उसे कितने अंक मिले थे?

- A. 189 B. 192
C. 176 **D. 196**

Q47. A shopkeeper bought 5 watches for Rs. 1200 each. He sold them for Rs.1800 each. Did he make a profit or incur a loss and by how much?

- A. Profit of Rs.2000 B. Loss of Rs.2700
C. Profit of Rs.3000 D. Profit of Rs.3400

Q47. एक दुकानदार ने 1200 रुपये की दर से 5 घड़ियाँ खरीदी। उसने उन्हें 1800 रुपये की दर से बेच दिया। उसे लाभ हुआ या नुकसान, और कितना?

- A. 2000 रुपये का लाभ B. 2700 रुपये का नुकसान
C. 3000 रुपये का लाभ D. 3400 रुपये का लाभ



Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor, SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA Morning Session (Revised Key)

Q48. Electricians wear rubber gloves when working with electrical appliances, since it is a good _____.

- A. Conductor
B. Insulator
C. Reactor
D. Semi-conductor

Q48. विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय बिजली मिस्त्री रबड़ के दस्ताने पहनते हैं क्योंकि यह एक अच्छा _____ है।

- A. कंडक्टर
B. इंसुलेटर
C. रिएक्टर
D. सेमी-कंडक्टर

Q49. _____ is a synthetic indicator to check if a solution is acidic or basic in nature.

- A. Vanilla
B. Turmeric
C. Water
D. Methyl orange

Q49. _____ यह जांचने के लिए एक सिंथेटिक सूचक है कि एक घोल अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय।

- A. वनीला
B. हल्दी
C. पानी
D. मिथाइल ऑरेंज

Q50. Heart muscles are referred to as _____ muscles.

- A. Circulatory
B. Voluntary
C. Skeletal
D. Cardiac

Q50. हृदय की मांसपेशियों को _____ मांसपेशियों के नाम से जाना जाता है।

- A. संचार
B. स्वैच्छिक
C. कंकालीय
D. हृत्

Q51. A cube is resting on a horizontal plane with one of its base edge parallel to a vertical plane. What will be the side view of the cube?

- A. Rectangle
B. Line
C. Square
D. cube



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor,
SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session (Revised Key)

Q51. एक क्यूब, जिसमें उसका आधार किनारा, एक ऊर्ध्वाधर प्लेन के समानांतर है, एक क्षैतिज प्लेन पर स्थित है। क्यूब का साइड व्यू क्या होगा?

- A. रेक्टेंगल
B. लाइन
C. वर्ग
D. क्यूब

Q52. Standard A4 paper dimension is _____.

- A. 297mm * 420mm
B. 420mm * 594mm
C. 148mm * 210mm
D. 210mm * 297mm

Q52. A4 पेपर का मानक आयाम _____ है।

- A. 297mm * 420mm
B. 420mm * 594mm
C. 148mm * 210mm
D. 210mm * 297mm

Q53. The size of title block as recommended by the B.I.S. is _____.

- A. 185mm * 65mm
B. 125mm * 50mm
C. 210mm * 125mm
D. 150mm * 150mm

Q53. B.I.S के सिफारिश के अनुसार, एक शीर्षक ब्लॉक का आकार _____ है।

- A. 185mm * 65mm
B. 125mm * 50mm
C. 210mm * 125mm
D. 150mm * 150mm

Q54. Continuous thick line is used for _____.

- A. visible outlines
B. dimension line
C. centre line
D. section line

Q54. मोटी रेखा का उपयोग _____ के लिए निरंतर किया जाता है।

- A. दृश्यमान रूपरेखा
B. आयाम रेखा
C. केंद्र रेखा
D. खंड रेखा



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor,
SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session (Revised Key)**

Q55. Set squares are used to draw _____.

- A. Circle
B. Ellipse
C. Cycloid
D. Vertical line

Q55. सेट वर्गों का उपयोग _____ को आकर्षित करने के लिए किया जाता है।

- A. सर्किल
B. एलिप्स
C. सीक्लोइड
D. वर्टिकल लाइन

Q56. Which of the following is the eccentricity for parabola?

- A. 1
B. 3/5
C. 2/3
D. 5/2

Q56. पैराबोला के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा, सनकी है?

- A. 1
B. 3/5
C. 2/3
D. 5/2

Q57. The plane of projection is assumed to be transparent in:

- A. 3rd angle projection
B. 1st angle projection
C. Isometric projection
D. None of the above

Q57. प्रक्षेपण के प्लेन को इस में पारदर्शी माना जाता है:

- A. 3rd कोण प्रक्षेपण
B. 1st कोण प्रक्षेपण
C. इसोमेट्रिक प्रक्षेपण
D. इनमे से कोई भी नहीं

Q58. The following is **not** included in title block:

- A. Name
B. Drawing number
C. Date
D. Size of the sheet



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor,
SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session (Revised Key)**

Q58. निम्नलिखित, शीर्षक ब्लॉक में शामिल, नहीं है:

- A. नाम
B. चित्र संख्य
C. तारीख
D. शीट का आकार

Q59. Third angle projection is recommended by:

- A. USA
B. ISI
C. Bureau of Indian Standards
D. IS

Q59. तीसरा कोण प्रक्षेपण, के द्वारा, अनुशंसित है:

- A. USA
B. ISI
C. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स
D. IS

Q60. The dotted lines represent _____.

- A. Squares
B. Hidden parts
C. Visible lines
D. Dimension lines

Q60. बिंदीदार रेखाएं _____ दर्शाती हैं।

- A. वर्गों
B. छिपे हुए भाग
C. दिखाई देनेवाले रेखाएँ
D. आयाम रेखाएँ

Q61. The internal angle of regular pentagon is ____ degree.

- A. 108
B. 90
C. 72
D. 30

Q61. नियमित पंचकोण का आंतरिक कोण ____ डिग्री है।

- A. 108
B. 90
C. 72
D. 30



Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor, SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA Morning Session (Revised Key)

Q62. The following are the methods for drawing isometric views except:

- A. Box method
B. Parallel line method
C. Centre lines method
D. Offset method

Q62. निम्नलिखित, इसोमेट्रिक विचारों को आकर्षित करने के तरीके हैं, सिवाय के:

- A. बॉक्स मेथड
B. समानांतर लाइन मेथड
C. केंद्र लाइनों की मेथड
D. ऑफसेट मेथड

Q63. The isometric projection of a sphere is a :

- A. Prism
B. Cylinder
C. Circle
D. Rectangle

Q63. एक स्फियर का इसोमेट्रिक प्रक्षेपण है:

- A. प्रिज्म
B. सिलेंडर
C. सर्किल
D. रेक्टेंगल

Q64. Application of Hyperbolic curve is:

- A. Cooling towers
B. Water channels
C. Light reflectors
D. Tennis bat

Q64. हाइपरबोलिक वक्र का अनुप्रयोग है:

- A. कूलिंग टवर्स
B. वाटर चैनल्स
C. लाइट रिफ्लेक्टर
D. टेनिस का बल्ला

Q65. Which type of line is part of section drawing ?

- A. Extension line
B. Center Line
C. Cutting plane line
D. Projection line



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor,
SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session (Revised Key)**

Q65. किस प्रकार की रेखा, सेक्शन ड्राइंग का, एक हिस्सा है?

- A. एक्सटेंशन लाइन
B. केंद्र लाइन
C. कटिंग प्लेन लाइन
D. प्रोजेक्शन लाइन

Q66. A tetrahedron has four equal _____ faces.

- A. square
B. rectangular
C. triangular
D. vertex

Q66. एक टेट्राहेड्रोन के चार बराबर _____ चेहरे होते हैं।

- A. वर्ग
B. आयताकार
C. त्रिकोणीय
D. वरटेक्स

Q67. The solid having a pentagon for a base and triangular lateral faces intersecting at a vertex is :

- A. Prism
B. Cone
C. Pentagonal pyramid
D. Hexagonal pyramid

Q67. एक शीर्ष पर प्रतिच्छेद करने वाला, आधार और त्रिकोणीय पार्श्व चेहरों के लिए, एक पंचकोण को रखनेवाला, एक ठोस है:

- A. प्रिज्म
B. शंकु
C. पेंटागोनल पिरामिड
D. हेक्सागोनल पिरामिड

Q68. Which of the following is **not** used to fix drawing sheet on the board?

- A. Drawing pins
B. Clips
C. Adhesive tapes
D. Thread

Q68. निम्नलिखित में से किसका उपयोग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को ठीक करने के लिए नहीं किया जाता है?

- A. चित्रकारी पिन
B. क्लिप्स
C. चिपकाने वाला टेप
D. धागा



**Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor,
SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session (Revised Key)**

Q69. Which of the following is **not** a pictorial drawing?

- A. Isometric
B. Multi view
C. Perspective view
D. Axonometric

Q69. निम्नलिखित में से कौन सा पिक्टोरियल ड्रॉयिंग नहीं है?

- A. इसोमेट्रिक
B. मल्टी व्यू
C. पर्सपेक्टिव व्यू
D. एक्सोनोमेट्रिक

Q70. What will be the front view of cone when its resting on HP with its base?

- A. Triangle
B. Circle
C. Rectangle
D. Square

Q70. एक शंकु के सामने का दृश्य क्या होगा, जब वो अपने आधार पर , HP पर स्थित होगा?

- A. त्रिकोण
B. सर्कल
C. रेक्टैंगल
D. वर्ग

Q71. What will be the top view of cylinder when its cut by a cutting plan parallel to its base?

- A. Triangle
B. Circle
C. Rectangle
D. Square

Q71. उसके आधार के समानांतर, एक कटिंग प्लान द्वारा कटौती की जानेपर, एक सिलेंडर का शीर्ष दृश्य क्या होगा?

- A. त्रिकोण
B. सर्कल
C. रेक्टैंगल
D. वर्ग

Q72. Which of the following curve is conical curve?

- A. Ellipse
B. Rectangle
C. Cycloid
D. Cylinder



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

**Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor,
SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session (Revised Key)**

Q72. निम्नलिखित में से कौन सा वक्र शंक्वाकार वक्र है?

- A. एलिप्स B. रेक्टेंगल
C. सीक्लोइड D. सिलेंडर

Q73. _____ lines should **not** cross any other line of the drawing.

- A. Dimension B. Horizontal
C. Projection D. Centre

Q73. _____ लाइनों को, ड्राइंग की किसी अन्य रेखा को पार, नहीं करना चाहिए।

- A. आयाम B. क्षैतिज
C. प्रक्षेपण D. केंद्र

Q74. Axis of the cylinder is kept parallel to horizontal and vertical plane, what will be the front and top view?

- A. Rectangle B. Circle
C. Ellipse D. Semicircle

Q74. जब सिलेंडर का अक्ष, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्लेन के समानांतर रखा जाता है, तब सामने और शीर्ष का दृश्य क्या होगा?

- A. रेक्टेंगल B. सर्कल
C. एलिप्स D. सेमिसरकल

Q75. Triangulation development method is used where the surfaces of solid can be divided into a number of _____ .

- A. triangles B. circles
C. rectangles D. ellipses

Q75. त्रयअंगुलेशन विकास विधि का उपयोग किया जाता है, जहां ठोस की सतहों को _____ के कई संख्याओं में विभाजित, किया जा सकता है।

- A. त्रिकोणों B. सर्कल्स
C. रेक्टेंगल्स D. एलिप्सेस



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor,
SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session (Revised Key)

Q76. To draw isometric view _____ dimensions are considered.

- A. true
B. reduced
C. enlarged
D. isometric

Q76. आइसोमेट्रिक दृश्य खींचने के लिए _____ आयामों पर विचार किया जाता है।

- A. सच्चे
B. कम किया हुआ
C. बढ़ा हुआ
D. इसोमेट्रिक

Q77. _____ is used to draw circle in isometric view.

- A. Four center method
B. Visual ray method
C. Box method
D. Vanishing point method

Q77. _____ का उपयोग आइसोमेट्रिक दृश्य में सर्कल बनाने के लिए किया जाता है।

- A. फोर सेंटर विधि
B. विसुअल रे विधि
C. बॉक्स विधि
D. वैनिसिंग पॉइंट विधि

Q78. Isometric view of the square with its surface horizontal is _____.

- A. rectangle
B. rhombus
C. square
D. triangle

Q78. इसकी सतह क्षैतिज के साथ वर्ग का इसोमेट्रिक दृश्य _____ है।

- A. रेक्टेंगल
B. रोम्बस
C. वर्ग
D. त्रिकोण

Q79. The perspective view of an object may be obtained by _____.

- A. four centre method
B. visual ray method
C. box method
D. method of point



Haryana Staff Selection Commission
Government of Haryana

Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor,
SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA
Morning Session (Revised Key)

Q79. किसी ऑब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव व्यू _____ द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

- A. फोर सेंटर विधि
B. विशुअल रे विधि
C. बॉक्स विधि
D. बिंदु की विधि

Q80. When a right circular cone is cut by a section plane through the apex of the cone, the section obtained is called _____.

- A. Isosceles triangle
B. Parabola
C. Ellipse
D. Circle

Q80. जब शंकु के एपेक्स के माध्यम से, एक सेक्शन प्लेन द्वारा, एक सही परिपत्र शंकु काट दिया जाता है, तो प्राप्त अनुभाग को कहा जाता है _____।

- A. आयसोसेलेस त्रिकोण
B. पैराबोला
C. एलिप्स
D. सर्कल

Q81. _____ is **not** suitable method to draw ellipse.

- A. Four centre method
B. Eccentricity method
C. Circle method
D. Rectangular oblong method

Q81. _____, दीर्घवृत्त खींचने के लिए, उपयुक्त विधि नहीं है।

- A. फोर सेंटर मेथड
B. एक्सेंट्रिसिटी मेथड
C. सर्किल मेथड
D. रेक्टैंगुलर ओब्लॉग मेथड

Q82. _____ is the distance measured parallel to the axis, between corresponding points on adjacent screw threads.

- A. Pitch
B. Lead
C. Flank
D. Root

Q82. _____ आसन्न स्कू थ्रेड्स पर संबंधित बिंदुओं के बीच के एक्सिस के समानांतर मापी जाने वाली दूरी है।

- A. पिच
B. लीड
C. फ्लैंक
D. रूट



Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor, SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA Morning Session (Revised Key)

Q83. Cycloidal curves are used for _____.

- A. Beam design
B. Gear teeth profile
C. Tunnels
D. Bridges

Q83. सयकलॉयडल कर्व्स का उपयोग _____ के लिए किया जाता है।

- A. बीम डिजाइन
B. गेअर टीथ प्रोफाइल
C. टनल्स
D. ब्रिड्जस

Q84. What will be the traces of line if line is kept parallel to both HP and VP?

- A. Only HT
B. Only VT
C. Both HT & VT
D. No traces

Q84. यदि लाइन को HP और VP, दोनों के समानांतर रखा जाए, तो उस लाइन के निशान क्या होंगे?

- A. सिर्फ HT
B. सिर्फ VT
C. दोनों HT और VT
D. कोई ट्रेस नहीं

Q85. When the load on a bearing is perpendicular (normal) to the shaft axis, the bearing is known as a:

- A. Pedestal bearing
B. Foot step bearing
C. Journal bearing
D. Rolling bearing

Q85. जब बेअरिंग पर भार शाफ्ट एक्सिस के लंबवत (सामान्य) होता है, तो बेअरिंग को इस रूप में जाना जाता है:

- A. पेडस्टल बेअरिंग
B. फुट स्टेप बेअरिंग
C. जर्नल बेअरिंग
D. रोलिंग बेअरिंग

Q86. The Front view of rectangular plane which is resting on HP with its base parallel to VP is _____.

- A. Point
B. Line
C. Rectangle
D. Square



Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor, SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA Morning Session (Revised Key)

Q86. आयताकार प्लेन का सामने का दृश्य, जो कि VP के समानांतर, अपने आधार के साथ HP पर स्थित है, _____ कहते हैं।

- A. बिंदु
B. लाइन
C. रेक्टैंगल
D. वर्ग

Q87. What will be the angle of rectangular surface with HP if a rectangular lamina is resting on HP with its short side and is seen as a square in the top view ?

- A. 30 deg
B. 60 deg
C. 90 deg
D. 10 deg

Q87. HP के साथ आयताकार सतह का कोण क्या होगा, यदि एक आयताकार लामिना, HP पर अपने छोटे पक्ष के साथ स्थित है, और इसे शीर्ष दृश्य में एक वर्ग के रूप में देखा जाता है?

- A. 30 deg
B. 60 deg
C. 90 deg
D. 10 deg

Q88. In projection of planes, which is **not** a correct statement in following options?

- A. Plane parallel to one HP and perpendicular to VP
B. Plane parallel to both HP and VP
C. Perpendicular to both the HP and VP
D. None of the above

Q88. प्रक्षेपण प्लेन्स में, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन, सही नहीं है?

- A. प्लेन एक HP से समानांतर और VP से परपेंडिकुलर
B. प्लेन HP और VP दोनों के साथ समानांतर
C. HP और VP, दोनों से परपेंडिकुलर
D. इनमें से कोई भी नहीं

Q89. Cap nut, having a spherical dome at the top is:

- A. Dome nut
B. Ring nut
C. Wing nut
D. None of the Above

Q89. कैप नट, जिसके शीर्ष पर एक गोलाकार गुंबद होता है, वो है:

- A. डोम नट
B. रिंग नट
C. विंग नट
D. इनमें से कोई भी नहीं



Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

Adv. No. 12/2019, Cat No. 12, Engineering Drawing Instructor, SKIL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT, HARYANA Morning Session (Revised Key)

Q90. All the dimensions given from a common base line is _____

- A. Parallel Dimensioning
B. Chain dimensioning
C. Running dimensioning
D. None of the above

Q90. सभी आयाम, जो एक सामान्य आधार रेखा से दिए जाते हैं, वो _____ हैं।

- A. समानांतर आयाम
B. श्रृंखला आयाम
C. रनिंग आयाम
D. इनमे से कोई भी नहीं